



**D Y PATIL
UNIVERSITY**

PUNE

संधी शोधण्यापेक्षा ती तयार करा : डॉ. अडसूळ

शैक्षणिक : आंबी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी विद्यालयात पदवीदान सोहळा

तळेगाव दाभाडे, दि. २७ (वार्ताहर)
- जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मोठी श्रेय वाळगा. संधी शोधण्यापेक्षा ती तयार करा. कुठल्याही परिस्थितीत मागे न हटता निर्णय घ्या. आयुष्य हे संघर्षमय आहे. पदवीचे शिक्षण घेत असताना तुमच्या आजूबाजूने निवडी ओळखा आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करा, असे प्रतिपादन सायबोर्ड फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अरूण अडसूळ यांनी आज केले.

आंबी (सा. मावळ) येथील डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि सी. वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंगचा पदवी ग्रहण समारंभ प्रमुख जाळू म्हणून डॉ. अडसूळ बोलत होते. या वेळी विश्वस ब. डी. कोटकर,

जनसंपर्क अधिकारी सुशांत पाटील, प्राचार्य डॉ. अभय पवार, डॉ. विलास नितनवरे, उपप्राचार्य प्रकाश पाटील तसेच सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

डॉ. अडसूळ पुढे म्हणाले की, विद्यार्थी दशेत पविष्याची दिशा मिळणे गरजेचे आहे. ही दिशा मिळाल्यास पुढचा प्रवास सोपा जातो आणि इच्छित श्रेयापर्यंत पोहचता येते. त्यामुळे ही दिशा तुमच्या महाविद्यालयीन जीवनातच निश्चित करा

महाविद्यालयाच्या विविध शाखेतून ४३० विद्यार्थ्यांना अडसूळ यांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्य परीक्षा निरीक्षक अधिकारी प्रा.



आंबी : पदवीप्रदान सोहळ्याप्रसंगी (डावीकडून) विलास नितनवरे, डॉ. अरूण अडसूळ, बी. एस. कोटकर, डॉ. अभय पवार, डॉ. प्रकाश पाटील तसेच विभाग प्रमुख.

संतोष बारी आणि प्रा. मोरेश मुखेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यालयाच्या आवारात दिशांत संचलन करण्यात आले. या कार्यक्रमास संस्थेचे

अध्यक्ष विजय पाटील, संकुल संचालक व्ही. रमेश यांचे मार्गदर्शन मिळाले. व्यवस्थापक बी. एस. गायकवाड आणि निबंधक अशोक

पाटील यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी प्रयत्न केले. सूत्रसंचालन प्रा. वृषाली देसले यांनी केले. प्रा. प्रभुदेव यांनी आभार मानले.

GRADUATION CEREMONY

2022 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात 89 लाख रोजगार

प्रशिक्षित कामगारांची भारतात कमतरता

वृत्तसंस्था, दिल्ली : साधारणतः सर्व क्षेत्रांत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचे मागणी होत असते. पण यासाठी देशात प्रशिक्षित कामगारांची अपेक्षेपेक्षा कमतरता आहे. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगातून वर्षाला 12 लाख रोजगार निर्माण होत असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून उपड झाली आहे. काही वर्षांत या क्षेत्रात रोजगारासाठी नव्या संधी मिळतील. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग कलाभ्यास यात उत्तम शक्यता-संधी आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगातील तज्ज्ञ मोठ्या प्रोत्साहनाच्या रूपात पाहतात आणि यास रोजगारातील नव्या संधी बनविण्याची शक्यता आहे. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननुसार इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी हार्डवेअर क्षेत्रात 2022 च्या शेवटपर्यंत 89 लाख प्रशिक्षित कामगारांची गरज असेल.

भारतीय रोजगार यंदा जंबो

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : भारतीय रोजगार २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षासाठी विविध पर्यायांनुसार हजार उद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्माण होत आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी १० कोटी रोजगार निर्माण होत आहेत. यासाठी प्रत्येक वर्षी १० कोटी रोजगार निर्माण होत आहेत. यासाठी प्रत्येक वर्षी १० कोटी रोजगार निर्माण होत आहेत.





D Y PATIL
UNIVERSITY

PUNE

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सेल्स, मार्केटिंग, एप डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी में बढ़े अवसर


20 लाख नए जॉब मिलेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में

शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2020 के अंत तक भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार होगा। ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसीलिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग युवाओं के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।

पिछले महीने जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट डेटा की बढ़ती मांग और नए सर्विस प्रोवाइडर की संख्या बढ़ने से देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2017 के अंत तक इस क्षेत्र में करीब 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें से करीब 17 लाख नौकरियां मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली या इससे संबंधित कंपनियों में मिलेंगी, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

हालांकि पिछले 6 वर्षों में देश भी मोबाइल इंटरनेट की तेजी से बढ़ती मांग से मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2017 के दौरान मोबाइल सर्विस बाजार की कमाई सालाना 5.2 फीसदी की दर से बढ़ेगी। वहीं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बाजार भी देश में तेजी से बढ़ रहा है। 2019 के अंत तक देश में करीब 18 करोड़ स्मार्टफोन होंगे, जो विश्व में कुल स्मार्टफोन का करीब 13.5 फीसदी है। 2020 के अंत तक विश्वभर में प्रत्येक तीन फोन में दो स्मार्टफोन होंगे और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार होगा। स्मार्टफोन और मोबाइल उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या से टेलीकॉम इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं।

इस सेक्टर में विभिन्न स्किल वाले प्रोफेशनल के लिए जॉब के मौके हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, सेल्स, एप्लीकेशन डेवलपर और साइबर



सिक्योरिटी के क्षेत्र में नौकरी के अवसर हैं। ऐसे में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैनेजमेंट क्षेत्र के युवाओं के लिए इसमें कैरियर के बेहतर विकल्प हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इससे संबंधित क्षेत्र के प्रोफेशनल की भी इस क्षेत्र में मांग रहती है।

साइंस और मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए विकल्प

साइंस स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित बैचलर कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। बारहवीं में मैथ्स विषय जरूरी है।

इंजीनियरिंग के लिए छात्र जेईई मेंन के माध्यम से बैचलर डिग्री कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं अन्य स्ट्रीम के बैचलर कोर्स में प्रवेश के लिए छात्र विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए इसके डिप्लोमा कोर्स में भी प्रवेश ले सकते हैं। सेल्स या मार्केटिंग से एम्बीए करने वाले छात्र भी इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं।

निजी क्षेत्र में ज्यादा मौके

इस क्षेत्र में प्रोफेशनल के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में जॉब के अवसर हैं। इस क्षेत्र में

अधिकांश नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही मौजूद हैं। सरकार के अनुसार पिछले एक साल में 37 नए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुए। ऐसे में इस क्षेत्र में नौकरी की संभावनाएं भी ज्यादा हैं।

2-3 लाख रु. शुरुआती पैकेज

इस क्षेत्र में फ्रेशर को औसतन 2 से 3 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में फ्रेशर को 18 से 25 हजार रुपए प्रति माह पैकेज मिलने की संभावना होती है। अनुभव के बाद सालाना पैकेज 4 से 6 लाख रुपए तक होने की संभावना होती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाला मंजूरी, १ लाख रोजगारनिर्मिती शक्य

प्रतिनधी | मुंबई

आगामी ५ वर्षांत जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स हव म्हणून राज्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असलेल्या 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाला' राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजूरी देण्यात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात ३०० कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह १२०० कोटी डॉलर्सच्या उलाढालीचे लक्ष्य या धोरणात आहे. या माध्यमातून एक लाख अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती अपेक्षित आहे. यासाठी आवश्यक कौशल्य, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अनुकूल स्थिती यादृष्टीने राज्याच्या या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

राज्याचे महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण

- एक लाख अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती
- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी एक खिडकी योजना
- गुंतवणूकदारांच्या समस्यांचे निराकरण करून त्यांना पायाभूत सुविधांचा पुरवठा करण्यावर भर
- इलेक्ट्रॉनिक्स, नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात संशोधन, विकासाला अधिकाधिक निधी.

मराठवाडा, विदर्भाकडे विशेष लक्ष

प्रारंभी ५ हजार कोटी आणि त्यानंतरच्या १० वर्षांत किमान १० हजार कोटी गुंतवणुकीची क्षमता असणारे मराठवाडा व विदर्भातील असे उद्योग आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र. सवलतीच्या दरात जमिनी, १५ वर्षांसाठी विद्युत शुल्क माफी आणि व्हॅटसह सीएसटीची १०० टक्के प्रतिपूर्ती मिळेल.